



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 1981/फाल्गुन 21, 1902

No. 102]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 1981/PHALGUNA 21, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और उर्वरक विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1981

का० आ० 176 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 12 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 195(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1979 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

- (1) उक्त आदेश से उपाबद्ध सारणी में,
- (i) 'प्रकार I विनिमित्तियां' शीर्षक के अधीन क्रम सं० 10, 11 और 12 तथा उनसे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।
- (ii) 'प्रकार II विनिमित्तियां' शीर्षक के अधीन क्रम सं० 5, 15, 17, 23 और 24 तथा उनसे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[सं० 9(2)/81-औषधि-II]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS &

FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Fertilizers)

ORDERS

New Delhi, the 12th March, 1981

S.O. 176 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 12 of the Drugs (Price Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers, (Department of Chemicals and Fertilizers), No. S.O. 195(E), dated the 2nd April, 1979, namely:—

- (1) In the Table annexed to the said Order,
- (i) Under the heading 'Category I formulations' Serial No. 10, 11 and 12 and the entries relating thereto shall be omitted.
- (ii) Under the heading 'Category II formulations,' Sl. No. 5, 15, 17, 23 and 24 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 9(2)/81-Drug-II]

का० प्रा० 177 (अ) —केन्द्रीय सरकार, भोषधि (कीमत नियंत्रण) अधिनियम, 1979 के पैरा 12 के उप पैरा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाययुक्त सारणी के स्तम्भ 5 में यथाविनिर्दिष्ट कीमतों को, जिसमें उत्पादशुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हैं, सम्मिलित नहीं हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विनिर्दिष्ट को, जिसको प्रवृत्तता और पैकेट प्रकार उक्त सारणी के स्तम्भ 3 और 4 की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, अग्रणी कीमत के रूप में नियत करती है —

सारणी				
क्रम सं०	विनिर्दिष्ट का नाम	प्रवृत्तता	पैकेट प्रकार	अग्रणी कीमत र०
1	2	3	4	5
प्रवर्ग-I विनिर्दिष्टियाँ				
1	(क) बेन्जोल पेनिसिलीन जी० सोडियम इंजेक्शन	5 लाख यूनिट/बायल 10 लाख यूनिट/बायल	1 बायल 1 बायल	1.32 1.88
	(ख) प्रोक्सीन पेनिसिलीन जी + बेन्जोल पेनिसिलीन जी सोडियम इंजेक्शन	प्रोक्सीन पेनि० 3 लाख + बेन्जोल पेनि० जी सोडियम 1 लाख/छुराक	1 छुराक बायल 5 छुराक बायल 10 छुराक बायल	1.06 3.37 5.89
	(ग) बेजायोन पेनिसिलीन जी० इंजेक्शन	6 लाख यूनिट/बायल 12 लाख यूनिट/बायल 24 लाख यूनिट/बायल	5 बायल 5 बायल 1 बायल	8.67 15.00 5.42
2	फेनोक्सी मेथिल पेनिसिलीन टेबलेट	65 मि० ग्रा०/टेबलेट 130 मि० ग्रा०/टेबलेट	10 × 10 की पट्टी/बोतल 10 × 10 की पट्टी/बोतल	18.19 31.57
प्रवर्ग-II विनिर्दिष्टियाँ				
1	(क) टेट्रासाइक्लीन कैप्सूल/टेबलेट	250 मि० ग्रा० प्रति कैप्सूल/टेबलेट	10 × 10 की पट्टी/बोतल 100 की बोतल/पट्टी	44.56 41.56
	(ख) टेट्रासाइक्लीन इंजेक्शन अंतः शिरा	250 मि० ग्रा० टेट्रासाइक्लीन + 425 मि० ग्रा० ऐस्कार्बिक अम्ल/बायल	1 बायल	1.18
	टेट्रासाइक्लीन इंजेक्शन अंतः पेशी	टेट्रासाइक्लीन एचसीएल 100 मि० ग्रा० + लिन्कोन एच सीएल 40 मि० ग्रा० + ऐस्कार्बिक अम्ल 250 मि० ग्रा० + मेगनीज क्लोराइड 46.84 मि० ग्रा०/बायल	1 बायल	0.79
	टेट्रासाइक्लीन इंजेक्शन अंतः शिरा	टेट्रासाइक्लीन एच सी एल 500 मि० ग्रा० + ऐस्कार्बिक अम्ल 1.25 ग्रा०/बायल	1 बायल	1.95
	(ग) टेट्रासाइक्लीन ग्रांज का भरहम/लोशन/युथिकाए/सुपरसीइड/बूंद	टेट्रासाइक्लीन एचसीएल 1%	3.5 ग्राम ट्यूब	1.09
2	(क) डिमेथिल क्लोरोटेट्रासाइक्लीन/क्लोरोटेट्रासाइक्लीन कैप्सूल/टेबलेट (विलनीय)	250 मि० ग्रा० क्लोरोटेट्रासाइक्लीन/ कैप्सूल 150 मि० ग्रा० डिमेथिल क्लोरोटेट्रासाइक्लीन प्रति कैप्सूल 300 मि० ग्रा० डिमेथिल क्लोरोटेट्रासाइक्लीन/कैप्सूल 30 मि० ग्रा० डिमेथिल क्लोरोटेट्रासाइक्लीन/टेबलेट	4 कैप्सूल की बोतल/पट्टी 4 कैप्सूल की बोतल/पट्टी 2 कैप्सूल की बोतल/पट्टी 10 कैप्सूल की पट्टी/बोतल	1.91 2.14 1.98 1.10
	(ख) डिमेथिल क्लोरोटेट्रासाइक्लीन/क्लोरोटेट्रासाइक्लीन गर्भंत/मुखी तरल निर्मित	60 मि० ग्रा० डिमेथिल क्लोरोटेट्रासाइक्लीन/मि० ली० 75 मि० ग्रा० डिमेथिल क्लोरोटेट्रासाइक्लीन/5 मि० ली०	5 मि० ली० की बोतल 28.5 मि० ली० की बोतल	2.08 2.85

1	2	3	4	5
(ग)	डिमैथिल क्लोरोटेट्रासाइक्लीन/क्लोरोटेट्रासाइक्लीन/क्लोरोटेट्रासाइक्लीन घ्राण्य का मरहम/लोशन	1% क्लोरोटेट्रासाइक्लीन नेत्र 0.5% डिमैथिल क्लोरोटेट्रासाइक्लीन	3.5 ग्राम की ट्यूब 15 ग्राम की ट्यूब	1.07 1.72
(घ)	आक्सीटेट्रासाइक्लीन कैप्सूल/टेबलेट (विलेय और यानिक)	250 मि.ग्रा. प्रति कैप्सूल/टेबलेट 50 मि.ग्रा. प्रति टेबलेट/कैप्सूल 100 मि.ग्रा. प्रति टेबलेट/कैप्सूल	25 × 4 की पट्टी/बोतल 25 की बोतल/पट्टी 10 की बोतल/पट्टी	44.05 2.88 2.62
(ङ)	आक्सीटेट्रासाइक्लीन घ्राण्य का मरहम/लोशन, आदि	10 मि.ग्रा./ग्राम 10 मि.ग्रा./मि.ली.	3.5 ग्राम की ट्यूब 6 मि.ली. की बोतल	1.27 2.40
(च)	आक्सीटेट्रासाइक्लीन शर्बत/बूंद	कैल्शियम आक्सीटेट्रासाइक्लीन 100 मि.ग्रा./मि.ली. 125 मि.ग्रा./मि.ली.	5 मि.ली. की बोतल 10 मि.ली. की बोतल 30 मि.ली. की बोतल 60 मि.ली. की बोतल	2.40 3.30 3.46 5.49
(छ)	आक्सीटेट्रासाइक्लीन इंजेक्शन	आक्सीटेट्रासाइक्लीन 50 मि.ग्रा., लिमोफेन 2% मि.ली. 125 मि.ग्रा./5 मि.ली. आक्सीटेट्रासाइक्लीन आधार वाली 250 मि.ग्रा./ 3 मि.ली. की	10 एम्पुल + 2 मि.ली. 10 मि.ली. बायल 10 एम्पुल × मि.ली. 3 मि.ली. एम्पुल	9.15 3.29 12.69 1.67
3.	टेट्रासाइक्लीन तरल बालकों की औषधि	100 मि.ग्रा./मि.ली.	5 मि.ली. बोतल 10 मि.ली. बोतल	2.00 2.76
4.	टेट्रासाइक्लीन शर्बत	125 मि.ग्रा. टेट्रासाइक्लीन/ 5 मि.ली.	25 मि.ली. 50 मि.ली. 450 मि.ली.	3.39 5.53 39.94

[सं 9(2)/81-औषधि-2]

S.O. 177(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 12 of the Drug (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column 5 of the Table hereto annexed as the revised leader price, exclusive of excise duty and local taxes, if any, of each of the formulations specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entry in columns 3 and 4 thereof:—

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack size	Leader Price Rs.
1	2	3	4	5
CATEGORY-I FORMULATIONS				
1. (a)	Benzyl Penicillin G. Sodium Injection	5 lac units/vial 10 lac units/vial	1 vial 1 vial	1.32 1.88
(b)	Procaine Penicillin G.+Benzyl Penicillin G. Sodium Injection	Procaine Pen. 3 lacs + Benzyl Pen. G. Sod. 1 lac/dose	1 dose vial 5 dose vial 10 dose vial	1.06 3.37 5.89
(c)	Benzathine Penicillin G. Injection	6 lac units/vial 12 lac units/vial 24 lac units/vial	5 vials 5 vials 1 vial	8.67 15.00 5.42
2.	Phenoxy Methyl Penicillin Tablets	65 mg/tab. 130 mg/tab.	10 × 10's strip/bottle 10 × 10's strip/bottle	18.19 31.57

1	2	3	4	5
CATEGORY-II FORMULATIONS				
1. (a) Tetracycline Capsules/Tablets	250 mg per capsule/tablet	10 × 10's strip/bottle 100's bottle/strip	44.56 41.56	
(b) Tetracycline Injection IV	250 mg Tetracycline + 425 mg Ascorbic Acid/vial.	1 vial	1.18	
Tetracycline Inj. IM	Tetracycline HCl 100mg + Lignocaine HCl 40mg + Ascorbic Acid 250 mg + Manganese Chloride 46.84 mg/vial.	1 vial	0.79	
Tetracycline Inj. IV	Tetracycline HCl 500mg + Ascorbic Acid 1.25 gm/vial.	1 vial	1.95	
(c) Tetracycline Eye ointment/lotion/troches/supersolid/drops.	Tetracycline HCl 1%	3.5 gm. tube 6 ml vial	1.09 2.09	
2. (a) Demethyl Chloro-Tetracycline/Chloro-Tetracycline capsules/tablets (soluble)	250 mg Chlorotetracycline cap. 150 mg Demethyl Chlorotetracycline per capsule. 300 mg Demethyl Chloro-tetracycline/capsule. 30 mg Demethyl Chloro-tetracycline tablet.	4 capsules bottle/strip 4 capsules bottle/strip 2 capsules/bottle/strip 10's strip/bottle	1.91 2.1 1.98 1.10	
(b) Demethyl Chloro-tetracycline/Chloro-tetracycline Syrup/Oral liquid preparation.	60 mg Demethyl Chlorotetracycline/ml 75 mg Demethyl Chloro-tetracycline/5 ml.	5 ml bottle 28.5 ml bottle	2.08 2.85	
(c) Demethyl Chloro-tetracycline/Chloro-tetracycline eye ointment/lotion.	1% Chloro-tetracycline Ophthalmic. 0.5% Demethyl Chlorotetracycline.	3.5 gram tube 15 gram tube	1.07 1.72	
(d) Oxytetracycline cap/tab (soluble and vaginal)	250 mg per capsule/tablet 50 mg per tablet/capsule 100 mg per tablet/capsule	25 × 4's strip/btl. 25's btl./strip 10's btl./strip	44.05 2.88 2.62	
(e) Oxytetracycline Eye ointment/lotion etc.	10 mg/gram 10 mg/ml	3.5 gram tube 6 ml btl.	1.27 2.40	
(f) Oxytetracycline Syrup/Drops	Calcium Oxytetracycline 100mg/ml 125 mg/5 ml	5 ml btl. 10 ml btl. 30 ml btl. 60 ml btl.	2.40 3.30 3.46 5.49	
(g) Oxytetracycline Inj.	Oxytetracycline 50 mg, lignocaine 2%ml 125 mg/5 ml Oxytetracycline Base 250 mg/3ml	10 amps. × 2 ml 10 ml vial 10 amp × 2 ml 3 ml amp.	9.15 3.29 12.69 1.67	
3. Tetracycline Liquid Paediatric	100 mg/ml	5 ml btl. 10 ml btl.	2.02 2.76	
4. Tetracycline Syrup	125 mg Tetracycline/5 ml	25 ml. 50 ml. 450 ml.	3.39 5.53 39.94	

का० आ० 178 (अ) —केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 12 के उपपैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का०आ० 882(अ), तारीख 6 नवम्बर, 1980 को अधिष्ठापित करते हुए, उससे उपाखण्ड सारणी के स्तम्भ 5 में यथाविनिर्दिष्ट कीमतों को, जिनमें उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, सम्मिलित नहीं है, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 का तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विनिर्दिष्ट को, जिसकी प्रबलता और पैक आकार उक्त सारणी के स्तम्भ 3 और 4 की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, अग्रणी कीमत के रूप में नियत करती है:—

सारणी

क्रम सं०	विनिर्दिष्ट का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अग्रणी कीमत रु०
प्रबर्ग I—विनिर्दिष्टियां				
1. (क) पी ए एस कण	80 % सोडियम पी ए एस कण		100 ग्राम टीन/बोतल 250 ग्राम टीन/बोतल 1000 ग्राम टीन/बोतल	15.68 36.96 142.63
(ख) पी ए एस टेब्लेट	500 मि०ग्रा० सोडियम पी ए एस/टेब्लेट		100 की बोतल 1000 की बोतल	10.70 86.34
प्रबर्ग II—विनिर्दिष्टियां				
2. कैल्शियम बेन्जोयल पी ए एस टेब्लेट	1 ग्राम/टेब्लेट		100 का टीन/बोतल 250 का टीन/बोतल 1000 का टीन/बोतल	20.88 49.58 191.01

[सं० 9(2)/81-औषधि-II]

S.O. 178 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 12 of the Drugs (Price Control) Order, 1979 and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 882(E), dated the 6th November, 1980, the Central Government hereby fixes the revised prices as specified in column 5 of the Table below as the leader price, exclusive of excise duty and local taxes, if any, of each of the formulations specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns 3 and 4 thereof:—

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack size	Leader Price Rs.
1	2	3	4	5
CATEGORY I—FORMULATIONS:				
1. (a) PAS Granules		80 % Sodium PAS Granules	100 gm. tin/bottle 250 gm. tin/bottle 1000 gm. tin/bottle	15.68 36.96 142.63
(b) PAS Tablets		500 mg. Sodium PAS/Tablet	100's bottle 1000's bottle	10.70 86.34
CATEGORY II—FORMULATIONS:				
2. Calcium Benzoyl PAS Tablets		1 gm/tablet	100's tin/bottle 250's tin/bottle 1000's tin/bottle	20.88 49.58 191.01

[No. 9(2)/81-Drug-II]

का०अ० 179(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 12 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाययुक्त सारणी के स्तम्भ 5 में यथाविनिर्दिष्ट कीमतों को, जिनमें उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, सम्मिलित नहीं है, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विनिर्दिष्ट को, जिसकी प्रचलता और पैक आकार उक्त सारणी के स्तम्भ 3 और 4 की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, प्रयुगी कीमत के रूप में नियत करती है:—

सारणी

क्रम सं०	विनिर्दिष्ट का नाम	प्रचलता	पैक आकार	प्रयुगी कीमत रु०
प्रवर्ग I—विनिर्दिष्टियाँ				
1.	फेनोक्सी मेथिल पेनिसिलीन टेब्लेट	65 मि०ग्रा०/टेब्लेट 130 मि०ग्रा०/टेब्लेट	6 × 8 की पट्टी/बोतल 6 × 8 की पट्टी/बोतल	9.28 15.72
2.	पी ए एस ग्रानुल कण	70% पी ए एस ग्रानुल कण	100 ग्राम टीन/बोतल 1000 ग्राम टीन/बोतल	14.74 131.32
प्रवर्ग II—विनिर्दिष्टियाँ				
1.	टेट्रासाइक्लीन शर्बत	125 मि०ग्रा०/5 मि०ली०	60 मि०ली० बोतल	4.85
2.	टेट्रासाइक्लीन कैप्सूल/टेब्लेट	333 मि०ग्रा० प्रति कैप्सूल/टेब्लेट	10 × 10 की पट्टी/बोतल 100 की बोतल 4 की बायस पट्टी	53.38 51.63 2.87
		500 मि०ग्रा० प्रति कैप्सूल/टेब्लेट 250 मि०ग्रा० प्रति कैप्सूल/टेब्लेट	25 × 4 का पैक 12 की पट्टी/बोतल	93.36 5.69
3.	आक्सीटेट्रासाइक्लीन इन्जेक्शन एन एफ	आक्सीटेट्रासाइक्लीन 50 मि०ग्रा० और लिग्नो कैन एच सी एल 2% प्रति मि०ली० 50 मि०ग्रा०/मि०ली०	30 मि०ली० बायल 20 मिली० बायल	6.06 4.60

[सं० 9(2)/81-औषधि-II]

S.O. 179(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 12 of the Drug (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes the prices specified in column 5 of the Table below as the leader price exclusive of excise duty and local taxes, if any, of each of the formulations specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns 3 and 4 thereof:—

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack size	Leader Price Rs.
CATEGORY I—FORMULATIONS				
1.	Phenoxy Methyl Penicillin Tablets	65mg/tablet 130 mg/tablet	6 × 8's strip/bottle 6 × 8's strip/bottle	9.28 15.72
2.	PAS Acid Granules	70% PAS Acid granules	100 g. tin/bottle 1000 g. tin/bottle	14.74 131.32
CATEGORY II—FORMULATIONS				
1.	Tetracycline Syrup	125 mg/5 ml	60 ml bottle	4.85
2.	Tetracycline Capsule/Tablet	333 mg per capsule/tablet	10 × 10's strip/bottle 100's bottle 4's vial/strip	53.38 51.63 2.87
		500 mg per capsule/tablet 250 mg per capsule/tablet	25 × 4's pack 12's strip/bottle	93.36 5.69
3.	Oxytetracycline Injection NF	Oxytetracycline 50 mg. & Lignocaine HCl. 2%/ml 50 mg/ml	30 ml vial 20 ml vial	6.06 4.60

[No. 9(2)/81-Drug-II]

का०आ० 180 (अ) —केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 12 के उप पैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 934 (अ), तारीख 2 दिसम्बर, 1980 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त आदेश से उपाखण्ड सारणी में, "प्रवर्ग-I विनिर्मितियाँ" शीर्षक के अधीन क्र०सं० 1(ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

क्रम सं०	विनिर्मित का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अप्रणी कीमत रु०
1	2	3	4	5
“(ब) स्ट्रेप्टोमाइसिन+पेनिसिलीन	0.5 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन आधार+ 3 लाख प्रोकेन पेनिसिलीन+ 1 लाख पेनिसिलीन जी सोडियम।	1 खुराक बायल	1.68	
	0.5 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन आधार+ 157 लाख प्रोकेन पेनिसिलीन+ 5 लाख पेनिसिलीन जी सोडियम	5 खुराक बायल	6.23	
	0.25 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन आधार+ 3 लाख यूनिट प्रोकेन पेनिसिलीन जी सोडियम+ 1 लाख पेनिसिलीन जी सोडियम	1 खुराक बायल	1.39	
	1 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन+ प्रोकेन पेनिसिलीन जी 3 लाख+ 1 लाख पेनिसिलीन जी सोडियम	1 खुराक बायल	2.39	
	0.5 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन आधार+ 5 लाख यूनिट पेनिसिलीन जी सोडियम	1 खुराक बायल	1.86	
	0.25 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन आधार+ 5 लाख यूनिट पेनिसिलीन जी सोडियम	1 खुराक बायल	1.55”	

[सं० 9(2)/81-औषधि-2]

भा० एन० दास, उप सचिव

S.O. 180 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 12 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendment in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S. O. 934(E), dated the 2nd December, 1980, namely:—

In the Table annexed to the said Order, under the heading 'CATEGORY-I FORMULATIONS', for S.No. 1(b) and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack size	Leader Price Rs.
1	2	3	4	5
“(b) Streptomycin+Penicillin		0.5 g. Streptomycin base+3 lacs Procaine Penicillin+1 lac Penicillin G. Sodium.	1 dose vial	1.68
		0.5 g. Streptomycin Base+15 lacs. Procaine Penicillin+5 lacs Penicillin G. Sodium.	5 dose vial	6.23
		0.5 g. Streptomycin base+3 lacs units Procaine Penicillin G. Sodium 1 lac Pen. G. Sodium.	1 dose vial	1.39
		1 gm. Streptomycin +Procaine Penicillin G. 3 lac+1 lac Penicillin G. Sodium.	1 dose vial	2.39
		0.5 g. Streptomycin base+5 lac units Penicillin G. Sodium.	1 dose vial	1.86
		0.25 g. Streptomycin base+5 lac units Penicillin G. Sodium.	1 dose vial	1.55

[No. 9(2)/81-Drug. II]

R. N. DAS, Dy. Secy.

